



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1934 (श0)
(सं0 पटना 387) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अगस्त 2012

सं0 3-ए-2-वे०पु०-06/12—8049/वि०
वित्त विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
महालेखाकार का कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक 6 अगस्त 2012

विषय :- बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के अधीन सहायक अभिलेख निदेशक के वेतनमान संशोधन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति की अनुशंसा प्राप्त की गई ।

दिनांक 01.01.06 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी संकल्प संख्या 630, दिनांक 21.01.10 निर्गत किया गया है । उक्त संकल्प के द्वारा सहायक अभिलेख निदेशक पदनाम से वेतन पुनरीक्षण नहीं हो सका । वस्तुतः यह पद प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शनी पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी के समकक्ष एवं पुराभिलेखापाल/सहायक पुराभिलेखापाल/शोधसहायक से प्रोन्नति का पद है । इस मूल कोटि के पद के लिए दिनांक 01.01.06 के प्रभाव से PB-2+4200 का वेतनमान स्वीकृत है। पुनः प्रथम प्रोन्नति के पद का वेतनमान PB-2+4200 ही स्वीकृत है ।

वेतन समिति एवं उच्चस्तरीय समिति के अनुशंसा की प्रोन्नति सम्बन्धी अवधारणा से प्रोन्नति एवं मूल कोटि के वेतनमान के एक हो जाने से विसंगति उत्पन्न हो गई है। फलस्वरूप सहायक

अभिलेख निदेशक/प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शनी पदाधिकारी/क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी के वेतनमान के संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन था ।

सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.06 के प्रभाव से पुराभिलेखापाल/सहायक पुराभिलेखापाल/शोध सहायक, वेतनमान PB-2+4200 से प्रथम प्रोन्नति के पद क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी एवं समकक्ष पद सहायक अभिलेख निदेशक/प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शनी पदाधिकारी के लिए PB-2+4200 का संशोधित वेतनमान PB-2+4600 की स्वीकृति दी जाती है ।

उक्त संशोधित/स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं0 630, दिनांक 21.01.10 के द्वारा स्थापित प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा ।

विश्वासभाजन,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 387-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>